

पाठ – 6 (चिट्ठी का सफर)

कठिन शब्द

1. डाक टिकट
2. संदेश
3. लिफ़ाफ़ा
4. संस्थान
5. भौगोलिक
6. गंतव्य
7. निरंतर
8. प्रजातियाँ
9. सैकड़ों
10. प्रवासी

शब्द – अर्थ

1. संदेश – समाचार
2. भिन्न – अलग
3. निरंतर – लगातार
4. दिलचस्प – रुचिकर
5. प्रवासी – एक स्थान पर न रहने वाले
6. चिट्ठी – पत्र

लिंग बदलो

पुल्लिंग

1. सम्राट
2. पुरुष
3. अध्यापक
4. विद्वान
5. डाक – सेवक
6. मालिक
7. शिष्य
8. आदमी
9. राजा
10. युवक

स्त्रीलिंग

1. साम्राज्ञी
2. औरत
3. अध्यापिका
4. विदुषी
5. डाक – सेविका
6. मालकिन
7. शिष्या
8. औरत
9. रानी
10. युवती

11.कबूतर	कबूतरी
12.घोडा	घोड़ी
13.पत्र	चिट्ठी

चिट्ठी का सफर

- 1) पत्र को लिखना – 2) पत्र पर जरूरी जानकारी अंकित करना ---3) डाकघर में डालना ----
- 4)डाकघर में छंटनी ----5) स्थान विशेष को प्रेषित करना –6) स्थानीय डाकिये द्वारा व्यक्ति विशेष को प्रेषित

प्रश्न – उत्तर

प्रश्न -1 पिनकोड का क्या मतलब होता है ?

उत्तर – पिनकोड का मतलब है – पोस्टल इंडेक्स नंबर का नंबर का छोटा रूप है ! किसी भी जगह का पिनकोड 6 अंको का ही होता है ! प्रत्येक अंक का एक खास स्थानीय महत्व होता है !

प्रश्न – 2 पिनकोड लिखने से क्या लाभ है ?

उत्तर – पिनकोड के द्वारा पत्र बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचता है !

प्रश्न – 3 पिनकोड की शुरुआत कब हुई थी ?

उत्तर – पिनकोड की शुरुआत 15 अगस्त , 1972 को हुई थी !

प्रश्न -4 पिनकोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर – पिनकोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है !

प्रश्न -5 हरकारा का क्या मतलब होता है ?

उत्तर – हरकारे पैदल ही चिट्ठी – पत्रों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं !

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो _

- 1) पते में सबसे छोटी जानकारी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की तरफ बढ़ते हैं !
- 2) पते में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिनकोड कहते हैं !
- 3) पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का ही छोटा रूप है !
- 4) पिनकोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है !
- 5) बहुत पुराने समय में कबूतर द्वारा ही संदेश भेजे जाते हैं !

उचित मिलान करो –

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. संदेश | संदेशवाहक / डाकिया (4) |
| 2. गंतव्य | संवाद (1) |
| 3. कस्बा | जहां जाना हो (2) |
| 4. हरकारे | छोटा शहर (3) |